

**सूक्ष्मजीव विज्ञानीय अनुभाग की स्थापना और उपकरणों की अधिष्ठापना के लिए
प्रस्ताव के लिए अनुरोध**

(ई निविदा)

प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) संख्या 02/2021-22

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत स्थापित एक सांविधिक प्राधिकरण)
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002

दिनांक 18 जून, 2021

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (जिसे बाद में यहां "खाद्य प्राधिकरण" कहा गया है) द्वारा 05 (पांच) क्षेत्रों अर्थात् पूर्वी, उत्तर-पूर्वी, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में टर्न-की आधार पर सूक्ष्मजीव विज्ञानीय अनुभाग की स्थापना और उपकरणों की अधिष्ठापना के लिए दोहरी बोली-प्रणाली पर निविदा आमंत्रित की जाती है।

2. दोहरी बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और वाणिज्यिक बोली) के अंतर्गत <http://etenders.gov.in/eprocure> पर दिए गए केन्द्रीय सार्वजनिक ई-खरीद पोर्टल (सीसीपी का ई-पोर्टल) के माध्यम से सूक्ष्मजीव विज्ञानीय अनुभाग की स्थापना और उपकरणों की अधिष्ठापना के लिए बोली आमंत्रित की जाती है।

3. निविदा के बारे में सामान्य सूचना निम्नानुसार है: -

- | | |
|---|--|
| (क) किसी भी पूछताछ के लिए संपर्क करें | nilesh.ojha@gov.in |
| (ख) संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम/पदनाम | निलेश कुमार ओझा
सहायक निदेशक (गुण.आश्वा.) |
| (ग) टेलीफोन संख्या | 9999438263 |
| (घ) निविदा प्राप्त होनेकी अंतिम तारीख और समय | 23 जुलाई, 2021 1500 बजे तक |
| (ङ) निविदा खोलने की तारीख और समय | 26 जुलाई, 2021 1100 बजे |

4. आरएफपी को निम्नलिखित पांच भागों में बांटा गया है :-

- (क) भाग 1 में आरएफपी के बारे में बोलीदाताओं के लिए सामान्य जानकारी और अनुदेश दिए गए हैं जैसे निविदा प्रस्तुत करने और खोलने का समय, स्थान, निविदा की वैधता की अवधि आदि
- (ख) भाग II में अपेक्षित मर्दानों/सेवाओं का आवश्यक विवरण दिया गया है जैसे कि अपेक्षाओं की अनुसूची (एसओआर), तकनीकी विवरण, डिलीवरी अवधि, डिलीवरी की विधि और प्रेषिती का विवरण और तकनीकी बोली का प्रारूप
- (ग) भाग III में इस आरएफपी में दी गई अन्य शर्तों के अलावा, आरएफपी में मानक शर्तें दी गई हैं जो सफल बोलीदाता के साथ करार के एक भाग का स्वरूप लेगा।
- (घ) भाग IV में आरएफपी की विशेष शर्तें दी गई हैं जो सफल बोलीदाता के साथ करार के एक भाग का स्वरूप लेगा।
- (ङ) भाग V में मूल्य बोली / वाणिज्यिक बोलियों के लिए मूल्यांकन मानदण्ड और प्रारूप दिए गए हैं।

5. बोलीदाता की सील के साथ प्रस्ताव के पत्र में निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है:

“मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता/करते हैं कि अनुबंध 1 के अनुसार निविदा पूछताछ में दिए गए सभी नियम और शर्तें मेरी/हमारी संस्था की ओर से मैं/हम स्वीकार करता हूँ/करते हैं”

6. यह आरएफपी बिना किसी वित्तीय प्रतिबद्धता के जारी की जा रही है और इस कार्यालय को किसी भी चरण पर निविदा के किसी भाग को संशोधित करने या विभेदपूर्ण बनाने के लिए अधिकार प्राप्त है। इस कार्यालय को किसी भी चरण पर जब कभी आवश्यक प्रतीत होगा आरएफपी को वापिस लेने का भी अधिकार प्राप्त है।

हस्ता/-

(नितेश कुमार ओझा)

सहायक निदेशक (गुणवत्ता आश्वासन)

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002